



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 1983/चैत्र 18, 1905  
No. 14] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 1983/CHAITRA 18, 1905

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1983

का. नि. आ. 30(ई).—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान होने पर कि छावनी प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड, लैंसडाउन के गठन में फेरफार होना वांछनीय है, एतद्वारा तदर्थ घोषणा करती है और यह अतिरिक्त निदेश देती है कि 7 अप्रैल, 1983 से छः माह की कालावधि के लिए अथवा उक्त अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत बोर्ड के गठन तक के लिए, इनमें से जो पहले हो, उक्त छावनी बोर्ड के गठन में फेरफार किया हुआ रहेगा।

[फाइल संख्या 29/57/सी/एल एण्ड सी/66/1636-  
गी/डी(क्यू एण्ड सी)]

MINISTRY OF DEFENCE  
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 8th April, 1983

S.R.O. 30(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Cantonment's Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government, being satisfied that for the administration of the Cantonment, it is desirable to vary the constitution of the Cantonment Board, Lansdowne.

hereby makes a declaration to that effect and further directs that the constitution of the said Board shall stand varied for a period of six months with effect from the 7th April, 1983 or till a Board is constituted under section 13 of the said Act, whichever is earlier.

[F. No. 29/57/C/L&C/66/1636-C/D(Q&C)]

का. नि. आ. 31(ई).—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (3) के अनुसरण में, जिसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 30-ई दिनांक 8 अप्रैल, 1983 के साथ, जो कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 1983 के भाग-2, खण्ड 4 में प्रकाशित हुआ था, पढ़ा जाए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि निम्न-लिखित दो व्यक्तियों को स्टेशन के आफिसर कमांडिंग स्टेशन द्वारा छावनी बोर्ड, लैंसडाउन के सदस्य के रूप में 7 अप्रैल, 1983 से मनोनीत किया गया है :—

1. लेफ्ट. कर्नल एस. एस. नायक—धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नामांकित।

2. श्री के. एस. नेगी पुत्र स्वर्गीय कौटन टी. एस. नेगी—धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत नामांकित।

[फाइल संख्या 29/57/सी/एल एण्ड सी/66/1636/  
1-सी/डी(क्यू एण्ड सी)]

इ. के. रसगोत्र, संयुक्त सचिव

**S.R.O. 31(E).**—In pursuance of sub-section (3) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 30-E dated 8-4-1983, published in the Government of India, Extraordinary Gazette, Part II Section 4, dated 8-4-1983, the Central Government hereby notifies that the following two persons have been nominated by the Officer Commanding the Station to be the

members of the Cantonment Board, Lansdowne with effect from 7th April, 1983 :—

1. Lt. Col. S. S. Naik—nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 14.

2. Shri K. S. Negi son of late Capt. T. S. Negi—nominated under clause (c) of sub-section (2) of Section 14.

[F. No. 29/57/C/L&C/66|1636|1-C|D(Q&C)]

E. K. RASGOTRA, Jt. Secy.